

संघ लोक सेवा आयोग

इंजीनियरी सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2020 तथा सम्मिलित भू-वैज्ञानिक(प्रधान) परीक्षा, 2020

दिनांक : 8 सितंबर, 2020

परीक्षा केन्द्र का विकल्प प्रस्तुत करने के संबंध में उम्मीदवारों को नोटिस

संघ लोक सेवा आयोग, अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित संशोधित परीक्षा/भर्ती परीक्षण कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 18.10.2020 (रविवार) को तथा दिनांक 17.10.2010 से 18.10.2020(शनिवार और रविवार) तक क्रमशः इंजीनियरी सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2020 तथा सम्मिलित भूवैज्ञानिक(प्रधान) परीक्षा, 2020 का आयोजन करेगा।

2. परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन के संबंध में उम्मीदवारों से प्राप्त हुए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने उम्मीदवारों को परीक्षा केन्द्र के संबंध में संशोधित विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने का निर्णय किया है।

3. पूर्वोक्त परीक्षा के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा केन्द्र का संशोधित विकल्प प्रस्तुत करने का यह अवसर आयोग की वेबसाइट <https://upsconline.nic.in> पर दिनांक 8 से 13 सितंबर, 2020 (सायं 6.00 बजे) तक उपलब्ध रहेगा। यदि कोविड-2019 संबंधी कठिनाइयों के कारण उम्मीदवारों को अपने पहले चुने गए केन्द्र पर परीक्षा देने में कोई परेशानी हो तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट पर जाएं और उपर्युक्त परीक्षा के संदर्भ में केन्द्र संबंधी अपने संशोधित विकल्प प्रस्तुत करें।

4. वे उम्मीदवार, जो अपने परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन के इच्छुक न हों, उन्हें केन्द्र में परिवर्तन हेतु ऑनलाइन प्रणाली में लॉगइन करने की आवश्यकता नहीं है।

5. इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2020 के परीक्षा नोटिस सं. 01/2020-इंजी. दिनांक 25.09.2019 तथा सम्मिलित भू-वैज्ञानिक परीक्षा के नोटिस सं. 02/2020-भूवि. दिनांक 25.09.2019 में उल्लिखित सभी अन्य शर्तें तथा पात्रता आदि यथावत रहेगी।